

# Artesian™ Thymol Drop

थाइमोल ड्रॉप्स संभावित स्वास्थ्य लाभों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये बूंदें एसिडिटी से तुरंत राहत देने, सीने की जलन और बेचैनी को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए जानी जाती हैं। वे उचित पाचन का समर्थन करके और पाचन तंत्र को शांत करके अपच की समस्याओं को कम करने में भी सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त, दांत दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए थाइमोल ड्रॉप्स का उपयोग गार्गल के रूप में किया

## विशेष सामग्री

- पुदीना अर्क
- अजवाइन तेल

## फायदा

- एसिडिटी से तुरंत राहत
- अपच की समस्या
- कब्ज में मदद करता है

## उपयोग विधि

थाइमोल बूंदों को दिन में दो बार ४-९ बूंदों की खुराक में लिया जाना चाहिए और इसे पानी या चाय के साथ मिलाया जा सकता है।



**Thymol Drops** offer a range of potential health benefits. These drops are known to provide instant relief from acidity, effectively alleviating heartburn and discomfort. They also aid in reducing indigestion problems by supporting proper digestion and soothing the digestive system. Additionally, thymol drops can be used as a gargle to relieve toothache problems.

## KEY INGREDIENTS

- Mint extract
- Ajwain oil

## BENEFITS

- instant relief from acidity
- Indigestion problems
- Helps in constipation

## HOW TO USE

Thymol drops should be taken at a dosage of 4-5 drops twice a day and can be mixed with either water or tea.